

NURSERY RHYMES

A set of 5 charts

Laminated, Size 50 x 75 cm (Available in English only)

NR01 : Nursery Rhymes - 1

NURSERY RHYMES - 1



BAA, BAA, BLACK SHEEP

Baa, Baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full
One for my master,
One for his dame,
And one for the little boy,
Who lives down the lane.



HUMPTY DUMPTY

Humpty Dumpty sat
on a wall,
Humpty Dumpty had
a great fall.
All the king's horses
And all the king's men
Couldn't put Humpty
Dumpty together again.

NR02 : Nursery Rhymes - 2

NURSERY RHYMES - 2



ONE, TWO, BUCKLE MY SHOE

One - two,
buckle my shoe ;
Three - four,
shut the door ;
Five - six,
pick up sticks.
Seven - eight
lay them straight ;
Nine - ten,
a big fat hen ;
Eleven - twelve,
dig and delve.




FUSSY CAT, FUSSY CAT

Pussy cat, Pussy cat,
Where have you been ?
I've been to London
To look at the queen.
Pussy cat, Pussy cat,
What did you there ?
I frightened a little mouse
under the chair.

NR03 : Nursery Rhymes - 3

NURSERY RHYMES - 3



TWINKLE, TWINKLE

Twinkle, Twinkle, little star,
How I wonder what you are ?
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
When the blazing Sun is gone,
When there nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, Twinkle, all the night.




HICKORY, DICKORY, DOCK !

Hickory, Dickory, Dock,
The mouse ran up the clock ;
The clock struck one,
The mouse ran down,
Hickory, dickory, dock !

NR04 : Nursery Rhymes - 4

NURSERY RHYMES - 4



JOHNNY ! JOHNNY

" Johnny ! Johnny !"
" Yes Papa "
" Eating sugar ? "
" No Papa "
" Telling a lie ? "
" No Papa "
" Open your mouth "
" Ha, Ha, Ha. "



CHUBBY CHEEKS

Chubby cheeks, dimpled chin,
Rosy lips, teeth within.
Curly hair, very fair,
Eyes are blue, lovely two,
Teacher's pet, is that you ?
Yes ! Yes ! Yes !

NR05 : Nursery Rhymes - 5

NURSERY RHYMES - 5



JACK & JILL

Jack & Jill,
Went up the hill
To fetch a pail of water ;
Jack fell down,
And broke his crown
And Jill came tumbling after.



DING, DONG, BELL

Ding, dong, bell,
Pussy's in the well !
Who put her in ?
Little Johnny Chin.
Who pulled her out ?
Little Johnny Stout.
What a naughty boy was that !
To worry poor Pussy Cat.

MS11 : Hen that laid Golden Eggs सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी

Hen that laid Golden Eggs सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी

Once a villager named Haru bought a hen from the market. When he brought the hen home, he was surprised to know that his hen laid a golden egg each day. By selling the golden eggs, he became the richest person of the village.

Haru was a very greedy person and wanted to become more and more rich. One day he thought why he should not get all the eggs stored in the hen's stomach at one stroke and become the richest person of the state. He brought a sharp knife from the kitchen and cut open the stomach of the hen. To his utter disappointment he could find only blood and flesh there. He repented upon his folly but now it was of no use.

एक गाँव में एक मुर्गी का खरीदार था जो एक मुर्गी खरीद कर आया। वह मुर्गी को घर लाया और उसने देखा कि उसकी मुर्गी रोज सोने का एक अण्डा देती है। उस अण्डों को बेचकर वह बहुत धनी बन गया।

Haru was a very greedy person and wanted to become more and more rich. One day he thought why he should not get all the eggs stored in the hen's stomach at one stroke and become the richest person of the state. He brought a sharp knife from the kitchen and cut open the stomach of the hen. To his utter disappointment he could find only blood and flesh there. He repented upon his folly but now it was of no use.

एक गाँव में एक मुर्गी का खरीदार था जो एक मुर्गी खरीद कर आया। वह मुर्गी को घर लाया और उसने देखा कि उसकी मुर्गी रोज सोने का एक अण्डा देती है। उस अण्डों को बेचकर वह बहुत धनी बन गया।

Haru was a very greedy person and wanted to become more and more rich. One day he thought why he should not get all the eggs stored in the hen's stomach at one stroke and become the richest person of the state. He brought a sharp knife from the kitchen and cut open the stomach of the hen. To his utter disappointment he could find only blood and flesh there. He repented upon his folly but now it was of no use.

एक गाँव में एक मुर्गी का खरीदार था जो एक मुर्गी खरीद कर आया। वह मुर्गी को घर लाया और उसने देखा कि उसकी मुर्गी रोज सोने का एक अण्डा देती है। उस अण्डों को बेचकर वह बहुत धनी बन गया।

MS12 : Selfish Friendship स्वार्थपूर्ण मित्रता

Selfish Friendship स्वार्थपूर्ण मित्रता

Once a mouse saw a cat caught in a hunter's net and being overjoyed started jumping around him. Suddenly the rat saw a mangoose ready to jump at him. Seeing the impending danger, the mouse requested the cat to save his life in exchange of freeing her from the net. The cat agreed and the mouse cut the net and all look to their heels.

A few days later, the cat feeling very hungry, came near the hole of the mouse and challenged him for a game. The mouse wisely replied, "I taught your friendship only to save my life. Now you may take your way".

एक दिन एक चूहे ने एक बिल्ली को जाल में फँसते देखा। अचानक चूहे ने अपने दोस्त बनने का फैसला कर लिया। उसने बिल्ली को जाल से मुक्त करने में मदद की।

एक दिन एक चूहे ने एक बिल्ली को जाल में फँसते देखा। अचानक चूहे ने अपने दोस्त बनने का फैसला कर लिया। उसने बिल्ली को जाल से मुक्त करने में मदद की।

एक दिन एक चूहे ने एक बिल्ली को जाल में फँसते देखा। अचानक चूहे ने अपने दोस्त बनने का फैसला कर लिया। उसने बिल्ली को जाल से मुक्त करने में मदद की।

MS15 : Ant and Dove कबूतर और चींटी

Ant and Dove कबूतर और चींटी

A dove used to live on a tree near the bank of a river. One day he saw a little ant struggling for her life in the river. He decided to help her and placed a leaf of the tree near the ant. The ant climbed up the leaf and the dove caught hold of the leaf with his beak and flew to a safer place and saved the life of the ant.

One day it so happened that a hunter came there and aimed at the dove. The ant seeing her saviour in danger, immediately climbed on the foot of the hunter and stung it with all its might. The hunter being stung missed his aim and the life of the poor dove was saved.

एक कबूतर पेड़ों के नीचे एक झरने के पास था। एक दिन एक छोटी चींटी को नदी में डूबते देखा। कबूतर ने उसे बचाने के लिए एक पत्ती को नदी में फेंका। चींटी पत्ती पर चढ़ गई और कबूतर को अपनी पीठ पर चढ़ाकर सुरक्षित स्थान पर ले आया और चींटी बच गई।

एक दिन एक कबूतर को एक शिकारी ने लक्ष्य बनाया और उसने उस पर तेंदुआ चढ़ा दी। चींटी ने शिकारी के पैर पर चढ़कर उसका पैर काट दिया। शिकारी को चोट लगी और वह भाग गया। कबूतर को बचाने में चींटी की मदद मिली।

MS17 : Two Cats and a Monkey दो बिल्लियाँ और एक बन्दर

Two Cats and a Monkey दो बिल्लियाँ और एक बन्दर

Once two cats found a piece of bread and started quarrelling over their shoes. Being unable to settle, they went to a monkey and requested him to do justice. The monkey divided the bread into two uneven pieces and asked them to weigh them. When he found one piece heavier, he bit it making the other piece heavier. Then he took the other piece and bit it and so on till only a very small piece was left. The monkey ate the small piece also saying that this was for the payment of his services. The cats lost the whole bread and went away repenting over their quarrel.

एक बार दो बिल्लियाँ एक टुकड़े के रोटी को बँटाने में लगीं। बँटाने में असमंजस होने पर वे एक बंदर को बुलाकर उसे न्याय करने के लिए कहती हैं। बंदर ने रोटी को दो असमान भागों में बाँटा और दोनों को वजन करने के लिए कहा। एक भाग भारी पड़ा तो दूसरा भाग बंदर ने काट लिया। फिर दूसरा भाग भी असमान बाँटा गया और बंदर ने उसे खा लिया।

MS18 : The Shepherd Boy झूठा गडरिया

The Shepherd Boy झूठा गडरिया

One shepherd boy named Raju used to go to a forest for grazing his sheep. One day he thought to play a mischief and started shouting "LION! LION!". Listening his cries the villagers came there alongwith their sticks and other weapons to save him. Reaching there the villagers could not see any lion and Raju was laughing at them. Reprimanding Raju the villagers returned back. One day it so happened that a lion actually came there. Raju was frightened and began shouting "LION! LION!". The villagers thought that he was again making a fool of them and nobody came to his rescue. The lion pounced upon the shepherd boy and ate him up.

एक चराने वाला बच्चा राजू एक जंगल में अपनी बंदी भाले चराने करता था। एक दिन उसे एक विचार हुआ। वह जंगल में जाकर 'लौ' 'लौ' की आवाज निकालने लगा। गाँव के लोग अपने-अपने हथियार लेकर वहाँ पहुँचने के लिए निकले। वहाँ पहुँचकर वे राजू को नहीं देख पाए और राजू हँसने लगा।

MS19 : Two Friends and a Bear दो मित्र और रीछ

Two Friends and a Bear दो मित्र और रीछ

Once two friends Monu and Sonu were passing through a jungle. Suddenly they saw a bear coming towards them. Monu asked Sonu, "Climb up the tree if you want to save your life" saying so Monu immediately climbed up the tree leaving Sonu bewildered as he did not know how to climb.

Sonu knew that the bear does not eat the dead person. He laid down and pretended to be dead and stopped breathing. The bear came close to Sonu, sniffed him and taking him to be dead went away. Monu came down, laughed at Sonu and asked "what did the bear say in your ears?" Sonu replied that the bear had said that he who was not a friend in need was not a friend indeed.

एक दिन दो दोस्त मनु और सोनु जंगल में गुजरते हुए थे। अचानक वे एक रीछ को देखे। मनु सोनु को बोला, "यदि तू जानना चाहता है कि तू बच पाएगा तो पेड़ पर चढ़ जा।" सोनु ने पेड़ पर चढ़ गया।

MS20 : Slave and the Lion गुलाम और शेर

Slave and the Lion गुलाम और शेर

Once a slave escaped from the prison of the king and reached a dense forest. There suddenly he heard the painful bellow of a lion. He saw a sharp thorn in the paw of the lion. Gathering courage, he reached near the lion and took out the thorn. The lion felt relieved, looked at the slave with gratitude and walked away.

Some days later the king's soldiers caught the slave and produced him before the king. The king ordered that he be put before the hungry lion. The lion when released from the cage recognised the slave and started licking his feet. Everyone was astonished and the king asked the slave the reason behind the whole episode. The slave narrated the story and the king being pleased ordered his release from slavery.

एक गुलाम एक राजा के कारागार से भाग निकला और जंगल में आया। वहाँ उसे एक शेर की आवाज सुनी। शेर के पंजे में एक तेज तंतु फँसा हुआ था। गुलाम ने साहस जुटाया और तंतु निकाल दिया। शेर को राहत मिली और उसने गुलाम की सेवा में तैयार हो गया।

MS21 : The Fox and the Crane लोमड़ी और सारस

The Fox and the Crane लोमड़ी और सारस

Once upon a time a friendship grew between a fox and a crane. One day the fox invited the crane for a dinner. Being mischievous by birth, the fox thought to play a hoax. When the crane reached Fox's home, he served the dinner in a very wide plate. Crane with his long beak could not eat it properly and remained hungry.

The Crane decided to pay back. He also invited the fox for a dinner and when he came, the Crane served the meal in a very narrow and long jar. The fox could not put his mouth in the jar, remained hungry and also realized the folly of making a fool of his friend.

एक समय एक लोमड़ी और सारस में मित्रता हो गई। एक दिन लोमड़ी ने सारस को खाने के लिए आमंत्रित किया। लोमड़ी ने सारस को खाने के लिए एक बहुत बड़ी और चौड़ी प्लेट पर खाना रखा। सारस की लंबी चोंच से खाना नहीं खाया और वह भूख मर गया।

